

फसलों की ई-खरीद

प्रलिस के लिये:

मेरी फसल-मेरा ब्योरा ई-खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), ई-नाम पोर्टल, भारतीय खाद्य नगिम, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACI)

मेन्स के लिये:

कृषि विपणन, कृषि में प्रौद्योगिकी की भूमिका

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा ई-खरीद' पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहाँ **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** पर 14 फसलों की खरीद की जाती है।

- इन फसलों में गेहूँ, सरसों, जौ, चना, धान, मकका, बाजरा, कपास, सूरजमुखी, मूँग, मूँगफली, अरहर, उड़द और तल्लि शामिल हैं।
- यह पोर्टल खेती में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के साधन के रूप में डिजिटल शासन (ई-शासन) को तेज़ी से अपनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2020)

1. सभी अनाजों, दालों और तल्लिहनों के मामले में भारत के कसिी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद असीमति है।
2. अनाज और दालों के मामले में MSP कसिी भी राज्य / केंद्रशासति प्रदेश में उस स्तर पर तय किया जाता है जहाँ बाज़ार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

पोर्टल से संबंधति मुख्य बदि:

- पोर्टल को कोवडि-19 महामारी के मद्देनज़र शुरू किया गया था।
- दो वर्ष से भी कम समय में राज्य के कुल कसिानों में से 8.71 लाख या 80% से अधिक ने रबी सीज़न में पोर्टल पर पंजीकरण कराया।
- पोर्टल का उद्देश्य ऑनलाइन बकिरी की सुवधि प्रदान करना है, जसिके तहत राज्य की 81 मंडयिों को 'ई-नाम' (इलेक्ट्रॉनिकि राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) पोर्टल से जोड़ा गया है।
 - 'ई-नाम' प्लेटफॉर्म एक अखलि भारतीय इलेक्ट्रॉनिकि ट्रेडिंग पोर्टल प्रदान करता है, जो कृषि उत्पादों के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाने हेतु मौजूदा APMC (कृषि उपज बाज़ार कमोडिटीज़) मंडयिों को एक नेटवर्क में एक साथ लाता है।

फसलों की खरीद:

- **उद्देश्य:** खाद्यान्न खरीद की सरकार की नीतिका व्यापक उद्देश्य किसानों के लिये MSP सुनिश्चित करना और कमजोर वर्गों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
 - यह प्रभावी बाज़ार हस्तक्षेप को भी सुनिश्चित करता है ताकि कीमतों को नियंत्रण में रखने के साथ ही देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके।
 - मूल्य समर्थन के तहत खरीद मुख्य रूप से किसानों को उनकी उपज के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु की जाती है जो बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है।
- **नोडल एजेंसी:** भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार की नोडल केंद्रीय एजेंसी है जो अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूँ और धान की खरीद करती है।
 - भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दशा-नरिदेशों के अनुसार केंद्रीय पूल के लिये राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा मोटे अनाज की खरीद की जाती है।
- **CACP की भूमिका:** प्रत्येक रबी/खरीफ की फसल के मौसम के दौरान फसल से पहले, भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सफ़िराशि के आधार पर खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा करती है।
- **राज्य सरकारों की भूमिका:** खाद्यान्नों की खरीद की सुविधा के लिये FCI और विभिन्न राज्य एजेंसियों ने राज्य सरकार के परामर्श से विभिन्न मंडियों में बड़ी संख्या में खरीद केंद्र स्थापित किये हैं।

वर्गित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: नमिनलखिति में से कौन से कारक/नीतियाँ हाल के दिनों में भारत में चावल की कीमत को प्रभावित कर रही है? (2020)

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य
2. सरकार द्वारा व्यापार
3. सरकार द्वारा भंडारण
4. उपभोक्ता सब्सिडी

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

ई-मंडी किसानों की मदद कैसे करेगी?

- **बिचौलियों का एकाधिकार:** मौजूदा बुनियादी ढाँचे के साथ कृषि उपज केवल निकटतम कृषि बाज़ार तक पहुँचती है जो कृषि उपज बाज़ार (कृषि उपज बाज़ार वस्तु) के अधिकार क्षेत्र में है।
 - यात्रा, पैकगि और उपज की छँटाई का खर्च उठाने के बाद किसान स्थानीय मंडियों में पहुँचते हैं और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को बेचने की प्रतीक्षा करते हैं।
 - किसानों को छँटाई, ग्रेडगि और अन्य आवश्यक कृषि प्रक्रियाओं के लिये स्थानीय एजेंटों पर निर्भर रहना पड़ता है, इस प्रकार उन बिचौलियों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं जो हमेशा भरोसेमंद या ईमानदार नहीं होते हैं।
- **किसानों के हितों के लिये हानिकारक:** यह अघोषित एकाधिकार जो अस्तित्व में है, वस्तु की वृद्धि और कृषि मूल्य शृंखला के मुक्त प्रवाह को प्रभावित रहा है, यह स्थानीय किसानों तथा उनकी आजीविका के लिये भी हानिकारक है।

वर्गित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: 'राष्ट्रीय कृषि बाज़ार' योजना को लागू करने के क्या लाभ हैं? (2017)

1. यह कृषि वस्तुओं के लिये एक अखलि भारतीय इलेक्ट्रॉनिकि ट्रेडगि पोर्टल है।
2. यह किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतों के साथ राष्ट्रव्यापी बाज़ार तक पहुँच प्रदान करती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रौद्योगिकी कृषि की मदद कर कैसे सकती है?

- **आधुनिक प्रौद्योगिकी की तैनाती:** **कृत्रिम बुद्धिमत्ता**, **ब्लॉकचेन**, मशीन लर्निंग, क्लाउड-स्मार्ट एडवाइज़री, जियो-टैगिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों का उपयोग करते हुए आधुनिक तकनीक व डिजिटल मशीनरी की शुरुआत के साथ पछिले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में नविशकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है।
 - हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के खेतों में कीटनाशकों का छड़िकाव करने के लिये भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में 10 **किसान ड्रोन** को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।
- **किसानों को लाभ:** डिजिटल मंडियों किसानों को थोक व्यापारियों और अन्य स्थानीय व्यापारियों के साथ सीधे बातचीत करने में सक्षम बना रही हैं, इस प्रक्रिया में शामिल बचौलियों को समाप्त कर रही हैं, जो उनके आंदोलन और फसल के प्रकार, कस्म और मूल्य बढ़ि को चुनने की स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं।

वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) अनुमोदित किया जाता है- (2015)

- (a) आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा
- (b) कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा
- (c) वणिगण और नरीकषण नदिशालय, मंत्रालय द्वारा
- (d) कृषि उपज मंडी समिति द्वारा

उत्तर: (a)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/e-procurement-of-crops>

